

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-95/2019/18.—छ. ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत, कसडोल जिला - बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :-

1. कसडोल नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है ।
2. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाएगा ।

अनुसूची

वार्ड क्रमांक	वार्ड का नाम
01	विद्यानगर वार्ड
02	इंदिरा कॉलोनी वार्ड
03	गुरुघासीदास वार्ड
04	चन्द्रशेखर वार्ड
05	पारस नगर वार्ड
06	कबीरदास वार्ड
07	भगतसिंह वार्ड
08	स्वामी विवेकानंद वार्ड
09	पं. दीनदयाल वार्ड
10	महात्मा गांधी वार्ड
11	डॉ. कन्हैया लाल वार्ड
12	महामाया वार्ड
13	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
14	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
15	मां बगदेवी वार्ड

कसडोल नगर पंचायत के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

वार्ड क्रमांक-01 विद्यानगर वार्ड

- उत्तर - कस्तुरबा विद्यालय से छरछेद सीमा तक (कोट रोड, कृषि भूमि होते हुए)
 पूर्व - छरछेद सीमा से दशरथ विहार तक (कृषि भूमि होते हुए)
 दक्षिण - दशरथ विहार से लच्छीराम के घर तक (श्याम बाई एवं ऋत्विक् मिश्रा के घर होते हुए)
 पश्चिम- लच्छीराम के घर से कस्तुरबा विद्यालय तक (विद्यानगर विद्युत विभाग होते हुए)

वार्ड क्रमांक-02 इंदिरा कॉलोनी वार्ड

- उत्तर - जयराम के घर से कॉलेज तक (महाराना बाई के घर होते हुए)
 पूर्व - कॉलेज से सोनूराम के घर तक (भुवनेश्वर पटेल के घर होते हुए)
 दक्षिण - सोनूराम के घर से चांटीपाली पुलिया तक (कृषि भूमि होते हुए)
 पश्चिम- चांटीपाली पुलिया से जयराम के घर तक (मूलचंद के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-03 गुरुघासीदास वार्ड

- उत्तर - श्यामलाल के घर से भुनेश्वर पटेल के घर तक (सोनू राम के घर होते हुए)
 पूर्व - भुनेश्वर पटेल के घर से मेलमति के हॉटल तक (रामचंद पटेल के घर होते हुए)
 दक्षिण - मेलमति के हॉटल से शीतला मंदिर तक (नया पुलिस थाना होते हुए)
 पश्चिम- शीतला मंदिर से श्यामलाल के घर तक (विद्या बाई के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-04 चन्द्रशेखर वार्ड

- उत्तर - चांटीपाली पुलिया से शैलेन्द्र साहू के घर तक (ब्लॉक कॉलोनी होते हुए)
 पूर्व - शैलेन्द्र साहू के घर से फगुवा के घर तक (कुन्दन श्रीवास के घर होते हुए)
 दक्षिण - फगुवा के घर से बिट्ठल राव के घर तक (घास भूमि होते हुए)
 पश्चिम- बिट्ठल राव के घर से चांटीपाली पुलिया तक (दिलहरण, ललित के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-05 पारस नगर वार्ड

- उत्तर - नया बस स्टैण्ड से देवेन्द्र खुंटे के घर तक (ईश्वरी के घर होते हुए)
 पूर्व - देवेन्द्र खुंटे के घर से फिरत पैकरा के घर तक (कृषि भूमि होते हुए)
 दक्षिण - फिरत पैकरा के घर से रामचंद के घर तक (कैलाश के घर होते हुए)
 पश्चिम - रामचंद के घर से नया बस स्टैण्ड तक (चन्द्रहास के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-06 कबीरदास वार्ड

- उत्तर - तहसील परिसर से राईस मिल तक (फिरत पैकरा के घर होते हुए)
 पूर्व - राईस मिल से दीपक पोल्ट्री फार्म तक (श्मशान होते हुए)
 दक्षिण - दीपक पोल्ट्री फार्म से कमलेश कश्यप के घर तक (कपूरचंद के घर होते हुए)
 पश्चिम - कमलेश कश्यप के घर से तहसील परिसर तक (गुरुघासीदास स्कूल होते हुए)

वार्ड क्रमांक-07 भगतसिंह वार्ड

- उत्तर - विष्णु पैकरा के घर से दशरथ विहार तक (बुधवारा के घर होते हुए)
 पूर्व - दशरथ विहार से गोपाल साहू के घर तक (कृषि भूमि होते हुए)
 दक्षिण - गोपाल साहू के घर से खोमन लाल के घर तक (बिहारी लाल के घर होते हुए)
 पश्चिम - खोमन लाल के घर से विष्णु पैकरा के घर तक (गणेश कॅवट के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-08 स्वामी विवेकानंद वार्ड

- उत्तर - वेदप्रकाश के घर से धनई बाई के घर तक (चंद कुमार के घर होते हुए)
 पूर्व - धनई बाई के घर से कृषि भूमि तक (ठाकुर राम के घर होते हुए)
 दक्षिण - कृषि भूमि से फुलसिंह के घर तक
 पश्चिम - फुलसिंह के घर से वेद प्रकाश के घर तक (दुबे कॉलोनी होते हुए)

वार्ड क्रमांक-09 पं. दीनदयाल वार्ड

- उत्तर - नागेश्वर लॉज से सूरज प्रकाश के घर तक
- पूर्व - सूरज प्रकाश के घर से भागवत डडसेना के घर तक (विनोद साहू के घर होते हुए)
- दक्षिण - भागवत डडसेना के घर से विजय साहू के घर तक (नंद साहू के घर होते हुए)
- पश्चिम - विजय साहू के घर से नागेश्वर लॉज तक

वार्ड क्रमांक-10 महात्मा गांधी वार्ड

- उत्तर - पुष्पा सोनी के घर से कबीर मंदिर तक (देवेन्द्र साहू, अर्जुन यादव के घर होते हुए)
- पूर्व - कबीर मंदिर से जेटूराम के घर तक (केदार मिश्रा के घर होते हुए)
- दक्षिण - जेटूराम के घर से कृषि भूमि तक
- पश्चिम- कृषि भूमि से पुष्पा सोनी के घर तक (मनीष मिश्रा के घर एवं रावतपारा होते हुए)

वार्ड क्रमांक-11 डॉ. कन्हैया लाल वार्ड

- उत्तर - जगताराम साहू के घर से प्रदीप मिश्रा के घर तक (मोहन सोनी के घर होते हुए)
- पूर्व - प्रदीप मिश्रा के घर से बिटठल धीवर के घर तक (देवीदास के घर होते हुए)
- दक्षिण - बिटठल धीवर के घर से कृषि भूमि तक
- पश्चिम- कृषि भूमि से जगताराम साहू के घर तक (सल्लू साहू के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-12 महामाया वार्ड

- उत्तर - तुमनाथ के घर से गौप्रसाद के घर तक (दिलेराम पटेल के घर होते हुए)
- पूर्व - गौप्रसाद के घर से दरबार क्षत्रिय के घर तक (भाईराज साहू के घर होते हुए)
- दक्षिण - दरबार क्षत्रिय के घर से बलभदर के घर तक (महामाया मंदिर होते हुए)
- पश्चिम- बलभदर के घर से तुमनाथ के घर तक (देवनारायण साहू के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-13 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर - शिवचरण के घर से बरतराम के घर तक (कमलेश साहू के घर होते हुए)
 पूर्व - बरतराम के घर से नंद राम के घर तक (रामचरण पटेल के घर होते हुए)
 दक्षिण - नंद राम के घर से भगेला के घर तक (गैस एजेंसी गोदाम से होते हुए)
 पश्चिम - भगेला के घर से शिवचरण के घर तक (चंदराम के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-14 रानी लक्ष्मी बाई वार्ड

- उत्तर - रमेश साहू के घर से देवीदयाल श्रीवास के घर तक
 पूर्व - देवीदयाल श्रीवास के घर से विक्रम ठाकुर के घर तक (मंगलूराम के घर होते हुए)
 दक्षिण - विक्रम ठाकुर के घर से नीलकण्ठ के घर तक।
 पश्चिम - नीलकण्ठ के घर से रमेश साहू के घर तक (पंकज के घर होते हुए)

वार्ड क्रमांक-15 मां बगदेवी वार्ड

- उत्तर - रामनाथ राव के घर से राजेन्द्र तिवारी के घर तक।
 पूर्व - राजेन्द्र तिवारी के घर से सुरेश साहू के घर तक (बगदेवी पारा होते हुए)
 दक्षिण - सुरेश साहू के घर से संतोषी साहू के घर तक (ईश्वरी मिश्रा के घर होते हुए)
 पश्चिम - संतोषी साहू के घर से रामनाथ राव के घर तक (जुगुतराम साहू के घर होते हुए)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई, 2019

क्रमांक-एफ 1-95/2019/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ 1-95/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar dated 12 July, 2019

NOTIFICATION

No. F 1-95/2019/18.- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 29 of the chhattisgarh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) the State Government hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Kasdol Distt. Balodabazar-Bhatapara as per schedule given Below:-

1. Divides Nagar Panchayat Kasdol into 15 wards and described the limits of each ward as shown in schedule.
2. Notified that one councilor shall be elected from each such ward.

-: SCHEDULE :-

S.No.of ward	Name of the ward
1	Vidyanagar Ward
2	Indira colony Ward
3	Gurughasidas Ward
4	Chandra shekhar Ward
5	Paras nagar Ward
6	Kabirdas Ward
7	Bhagatsingh Ward
8	Swami Vivekanand Ward
9	Pt. Deendayal Ward
10	Mahatma gandhi Ward
11	Dr. Kanhaiya lal Ward
12	Mahamaya Ward
13	Dr. Ambedkar Ward
14	Ranilaxmi bai Ward
15	Ma Bagdevi Ward

Descriptions of the Boundries of ward of Nagar Panchayat Kasdol**Ward no. - 01 Vidyanagar Ward**

- North From Kasturba Vidyalay to chharchhed border (via Kot road and Agriculture land)
- East From Chharchhed border to Dashrath Vihar (via Agriculture land.)
- South From Dashrath vihar to Lachchhiram's house. (via Shyam bai's and Ritvik mishra's house.)
- West From Lachchhiram's house to Kasturba vidyalay (via Vidyanagar Electricity Department)

Ward no. - 02 Indira colony Ward

- North From Jairam's house to Collage (via Maharana bai's house)
- East From Collage to Sonuram's house (via Bhuvneshwar Patel's House)
- South From Sonuram's house to chantipali culvert (via Agriculture land)
- West From Chantipali culvert to Jairam's house (via Mulchand's house)

Ward no. - 03 Gurughasidas Ward

- North From Shyamlal's house to Bhuneshwar patel's house (via Sonuram's house)
- East From Bhuneshwar patel's house to Melmati's hotel (via Ramchandra patel's house)
- South From Melmati's hotel to Shitla temple (via new police station)
- West From Shitla temple to Shyamlal's house (via Vidya bai's house)

Ward no. - 04 Chandra Shekhar Ward

- North From Chantipali Culvert to Shailendra Sahu's House (Via Block colony)
- East From Shailendra Sahu's House To Faguva's House (Via Kundan Shriwas's House)
- South From Faguva's House To Bitthal Rao's House (Via Grass Land)
- West From Bitthal Rao's House To Chantipali Culvert (Via Dilharan, Lalit's House)

Ward no. - 05 Paras Nagar Ward

- North From New Bus Stand To Devendra Khute's House (Via Ishwari's House)
- East From Devendra Khute's House To Firat Paikra's House (Via Agriculture Land)
- South From Firat Paikra's House To Ramchandra's House (Via Kailash's House)
- West From Ramchandra's House To New Bus Stand (Via Chandrahas's House)

Ward no. - 06 Kabirdas Ward

- North From Tahsil Campus To Rice Mill (Via Firat Paikra's House)
- East From Rice Mill To Deepak Poultri Farm (Via Shmasham)
- South From Deepak Poultri Farm To Kamlesh Kashyap's House (Via Kapurchand's House)
- West From Kamlesh Kashyap's House To Tahsil Campus (Via Gurughasidas School.)

Ward no. - 07 Bhagat singh Ward

- North From Vishnu paikra's house to Dashrath vihar (via Bhudhwara's house)
- East From Dashrath vihar to Gopal sahu's house (via Agriculture land)
- South From Gopal sahu's house to Khomanlal's house (via Biharilal's house)
- West From Khomanlal's house to Vishnu paikra's house (via Ganesh kenwat's house)

Ward no. - 08 Swami Vivekanand Ward

- North From Ved Prakash's house to Dhanai bai's house (via Chand kumar's house)
- East From Dhanai bai's house to agriculture land (via Thakur ram's house)
- South From Agriculture land to Fulsingh's house.
- West From Fulsingh's house to Vedprakash's house (via Dubey colony)

Ward no. - 09 Pt. Deendayal Ward

- North From Nageshwar lodge to Suraj prakash's house.
- East From Suraj prakash's house to Bhagwat dadsena's house (via Vinod sahu's house)
- South From Bhagwat dadsena's house to Vijay sahu's house (via Nand sahu's house)
- West From Vijay sahu's house to Nageshwar lodge.

Ward no. - 10 Mahatma gandhi Ward

- North From Pushpa Soni's House To Kabir Temple (Via Devendra Sahu, Arjun Yadav's House)
- East From Kabir Temple To Jethuram's House (Via Kedar Mishra's House)
- South From Jethuram's House To Agriculture land
- West From Agriculture land To Pushpa Soni's House (Via Manish Mishra's House and Rawat Para)

Ward no. - 11 Dr. Kanhaiya lal Ward

- North From Jagatram sahu's house to Pradip mishra's house (via Mohan soni's house)
- East From Pradip mishra's house to Bitthal dhiwar's house (via Devidas's house)
- South From Bitthal dhiwar's house to Agriculture land.
- West From Agriculture land to Jagatram sahu's house (via Salgu sahu's house)

Ward no. - 12 Mahamaya Ward

- North From Tumnath's house to Gaoprasad's house (via Dileram patel's house)
- East From Gaoprasad's house to Darbar kshatriya's house (via Bhairaj sahu's house)
- South From Darbar kshatriya's house to Balbhaddar's house (via Mahamaya temple)
- West From Balbhaddar's house to Tumnath's house (via Devnarayan sahu's house)

Ward no. - 13 Dr. Ambedkar Ward

- North From Shivcharan's house to Baratram's house (via Kamlesh sahu's house)
- East From Baratram's house to Nandram's house (via Ramcharan patel's house)
- South From Nandram's house to Bhagela's house (via Gas agency's godown)
- West From Bhagela's house to Shivcharan's house (via Chandram's house)

Ward no. -14 Ranilaxmi bai Ward

- North From Ramesh sahu's house to Devidayal shriwas's house.
- East From Devidayal shriwas's house to Vikram Thakur's house (via Manglu ram's house)
- South From Vikram thakur's house to Nilkanth's house.
- West From Nilkanth's house to Ramesh sahu's house (via Pankaj's house)

Ward no. - 15 Ma Bagdevi Ward

- North From Ramnath rao's house to Rajendra tiwari's house.
- East From Rajendra tiwari's house to Suresh sahu's (via Bagdevi para)
- South From Suresh sahu's house to Santoshi sahu's house. (via Ishwari mishra's house)
- West From Santoshi sahu's house to Ramnath rao's house (via Jugut ram sahu's house)

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,
R.EKKA, Deputy Secretary.